



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1290]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2005/अग्रहायण 21, 1927

No. 1290]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2005/AGRAHAYANA 21, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1745(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्रप्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 9 के 216.000 कि.मी. से 252.000 कि.मी. (नन्दीगाम-इब्राहिमपटनम सेक्शन) का निर्माण, अनुस्क्षण, प्रबंध और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त भूमि के उपयोग पर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रबंधक-II, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, विजयवाड़ा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेप को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

(1)

अनुसूची

आंध्रप्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-9 के 216.000 कि०मी० से 252.000 कि.मी. (नन्दीगाम - इब्राहिमपटनम सेक्शन) तक प्रस्तावित मार्गाधिकार के अंतर्गत आने वाले संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन ।

जिला: कृष्णा

क्रम संख्या	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर / वर्ग मी०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नन्दीगाम	(1) नन्दीगाम	867/1ए	निजी	1287
			865/1	निजी	123
			645/1सी	निजी	914
			645/2	सरकारी	203
			645/3सी	निजी	208
			646/1सी3	निजी	841
		(2) अड्थावरम	1/1	सरकारी	982
			5/1	निजी	75
			110/1बी1	निजी	1257
			6	निजी	13
			7बी	निजी	541
			8बी	निजी	228
			9बी	निजी	114
			91/1बी2	निजी	1170
			2ए	निजी	157
			89/2	निजी	316
			85ए/2बी	निजी	2460
2	कांचीकाचेरला	(1) कीसरा	32/1	निजी	159
			35/1सी1	निजी	5097
		(2) कांचीकाचेरला	281/2बी	सरकारी	542
			292/1	निजी	360
			278/3बी	निजी	915
			540/1ए	निजी	335
			2ए	निजी	82
			1ए3	निजी	591
			546/1ए	निजी	156
			3ए	निजी	10
			4ए	निजी	272
			6	निजी	122
			7ए	निजी	240
			8ए	निजी	230
			9	निजी	265
			546/10ए	निजी	491
			11	निजी	297
			12बी	निजी	587
			636/बी1सी1	निजी	473
			1ए1	निजी	281
			1ए1	निजी	243
			1डी1	निजी	932

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			636बी/ 1बी	निजी	1012
			635/2सी	निजी	490
			635/2सी	निजी	162
			629/2ए1	निजी	1155
			3	निजी	99
		(3) पस्तिला	328/2	निजी	852
			659/4बी1	निजी	988
			3सी	निजी	113
			799	सरकारी	777
3	इब्राहिमपटनम	(1) कचावरम	16/6	निजी	444
			7	सरकारी	480
			9	निजी	159
			17/2	निजी	226
			35/2बी	निजी	272
		(2) केथनाकोंडा	84/2बी	निजी	198
			84/1बी	निजी	132
			85/6बी	निजी	432
			86/2डी3	निजी	077
			3बी	निजी	603
			7बी	निजी	789
			30/1	सरकारी	508
			89/1बी	निजी	741
			2बी	निजी	202
			90/2	सरकारी रोड	111
			41/2	सरकारी	761
		(3) जेमी मचावरम	40/1बी	निजी	1288
			41/1ए2	निजी	580
			1बी2	निजी	1089
			2बी2	निजी	638
		(4) मुलापाडु	28/2बी	निजी	744
			31/2	सरकारी	1393
		(5) जुपुडी	77/2	सरकारी	1034
			70/3बी2ए	निजी	1507
			70/4	सरकारी	096
			71/1	निजी	363
			2 डी	निजी	264
			72/3	निजी	259
		(6) इब्राहिमपटनम	107/2	निजी	1585
			104/1बी	निजी	1445
			63/2ए	निजी	2124
			117/1ए2	निजी	71

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2005

S.O. 1745(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building, maintenance, management and operation of National Highway No.9 on the stretch from Km. 216.000 to Km. 252.000 (Nandigama-Ibrahimpattanam Section) in Krishna District in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land for the aforesaid purpose;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Manager-II, Project Implementation Unit, National Highways Authority of India, Vijayawada, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and may, after hearing such objection and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objection;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act, shall be final;

The land plans and other details of land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested persons, at the office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land with or without structure falling within proposed right of way of National Highway No.9 from Km.216.000 to Km.252.000 (Nandigama-Ibrahimpattanam Section) in Krishna District in the State of Andhra Pradesh.

DISTRICT: KRISHNA

Serial Number	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Type of land	Area in Hectare/ Sqm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nandigama	(1)Nandigama	867/1A	Private	1287
			865/1	Private	123
			645/1C	Private	914
			645/2	Government	203
			645/3C	Private	208
			646/1C3	Private	841
		(2)Aithavaram	1/1	Government	982
			5/1	Private	75
			110/1B1	Private	1257
			6	Private	13
			7B	Private	541
			8B	Private	228
			9B	Private	114
			91/1B2	Private	1170
			2A	Private	157
			89/2	Private	316
			85A/2B	Private	2460
2	Kanchikacherla	(1)Keesara	32/1	Private	159
			35/1C1	Private	5097
		(2)Kanchikacherla	281/2B	Government	542
			292/1	Private	360
			278/3B	Private	915
			540/1A	Private	335
			2A	Private	82
			1A3	Private	591
			546/1A	Private	156
			3A	Private	10
			4A	Private	272
			6	Private	122
			7A	Private	240
			8A	Private	230
			9	Private	265
			546/10A	Private	491
			11	Private	297
			12B	Private	587
			636/B 1C1	Private	473
			1A1	Private	281
			1A1	Private	243
			1D1	Private	932

3561 GT/05-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			636B/1B	Private	1012
			635/2C	Private	490
			635/2C	Private	162
			629/2A1	Private	1155
			3	Private	99
		(3)Paritala	328/2	Private	852
			659/4B1	Private	988
			3C	Private	113
			799	Government	777
3	Ibrahimpattam	(1)Kachavaram	16/6	Private	444
			7	Government	480
			9	Private	159
			17/2	Private	226
			35/2B	Private	272
		(2)Kethanakonda	84/2B	Private	198
			84/1B	Private	132
			85/6B	Private	432
			86/2D3	Private	077
			3B	Private	603
			7B	Private	789
			30/1	Government	508
			89/1B	Private	741
			2B	Private	202
			90/2	Government road	111
			41/2	Government	761
		(3)Zemi Machavaram	40/1B	Private	1288
			41/1A2	Private	580
			1B2	Private	1089
			2B2	Private	638
		(4)Mulapadu	28/2B	Private	744
			31/2	Government	1393
		(5)Jupudi	77/2	Government	1034
			70/3B2A	Private	1507
			70/4	Government	096
			71/1	Private	363
			2D	Private	264
			72/3	Private	259
		(6)Ibrahimpattam	107/2	Private	1585
			104/1B	Private	1445
			63/2A	Private	2124
			117/1A2	Private	71

[F. No. NHAI/11014/3A(1)/2005/NH-9/AP/Tech/GM/(CK-I)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.